

अभिधान राजेन्द्र कोष भाग-५ (फोल्डर नं. ०६०४५)
रचयिता - विजय राजेन्द्रसूरिश्वरजी

मुख्य टाइटल

प्रकाशकीय निवेदन

द्वितीयावृत्ति - प्रस्तावना

सौधर्म बृहत्तपागच्छीय पट्टावली

आभार प्रदर्शनम्

श्री अभिधान राजेन्द्र कोष भाग-५

पकार

प	१
पउमलया	१५
पएसि (ण्)	२८
पओग	४५
पंजलि	५७
पक्खारिण	६९
पच्चक्ख	७४
पच्चक्खाण	८६
पच्चमाण	१२३
पच्छित्त	१३०
पज्जति	२११
पज्जुसवणाकप्प	२३६
पट्टावलि	२५६
पडिक्कमण	२६२
पडिपुच्छणा	३२५
पडिलेहणा	३३९
पडुच्च	३७१
पण्णत्तिकुसल	३८५
पत्त	३९५
पत्तकप्पिय	४२५
पभासचित्तगर	४४१
पमाण	४४४
पमायट्ठाण	४८२
पय	५०३
परत्त	५२३

परमट्ठि(ण्) -----	५३९
परिग्गह -----	५५३
परिट्ठवणा -----	५७०
परिणाम -----	५९३
परियंत -----	६२७
परिसा -----	६४९
परिहार -----	६६०
पलंब -----	६९९
पवज्जा -----	७३३
पवत्तिणी -----	७७९
पव्व -----	७९९
पसढ -----	८११
पाणबह -----	८३३
पादणिज्जोग -----	८५१
पारिट्ठावणिया -----	८६९
पावसमण -----	८८३
पासंडत्थ -----	९०५
पिंड -----	९१८
पिवित्तए -----	९३९
पुंडरीया -----	९४४
पुक्खरवरदीव -----	९६५
पुणआइ -----	९९१
पुप्फचूलिया -----	१००३
पुरिसजाय -----	१०१७
पुरिसवि(च)जयविभंग -----	१०३९
पुव्वा -----	१०६५
पेढालपुत्त -----	१०८१
पेसप्पओग -----	१०९५
पोता -----	११२१
पोसह -----	११३३
फकार	
फ -----	११४१
फल -----	११४७
फिट्ट -----	११५९
बकार	

ब	-----	११६४
बंध	-----	११६५
बंधण	-----	११९२
बंधमोक्खसिद्धि	-----	१२४१
बंध	-----	१२५७
बंधचेरसमाहिट्ठाण	-----	१२६८
बलभावणा	-----	१२८९
बहुस्सुयपूया	-----	१३०७
बिंबभूय	-----	१३२३
भकार		
भ	-----	१३३४
भट्ट	-----	१३४१
भत्तपरिण्णा	-----	१३६१
भप्पय	-----	१३७७
भरह	-----	१३८५
भव	-----	१४७८
भावणा	-----	१५०६
भासा	-----	१५२३
भिव्खु	-----	१५६१
भिलिंगावंत	-----	१५८३
भोगपूर	-----	१६०५
भोयण	-----	१६११